



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

23 फाल्गुन 1941 (श0)

(सं० पटना 203) पटना, शुक्रवार, 13 मार्च 2020

सं० 01/प्रा0आ0(ओलापात)-07/2020/884/आ0प्र0
आपदा प्रबंधन विभाग

संकल्प

5 मार्च 2020

विषय : माह फरवरी, 2020 में असामयिक वर्षा एवं ओलावृष्टि के कारण हुए फसल क्षति हेतु कृषकों को कृषि इनपुट अनुदान के वितरण की स्वीकृति के संबंध में।

कृषि विभाग, बिहार के पत्रांक 1198 दिनांक 03.03.2020 से प्राप्त विस्तृत जिलावार प्रतिवेदनानुसार माह फरवरी, 2020 में असामयिक वर्षा एवं ओलावृष्टि के कारण कुल 11 जिलों यथा पटना, बक्सर, कैमूर, गया, जहानाबाद, औरंगाबाद, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चम्पारण, वैशाली, समस्तीपुर एवं भागलपुर के कुल 31929.35 हेक्टेयर में लगे फसल में 33 प्रतिशत अथवा उससे अधिक की क्षति हुई है। इसके अतिरिक्त अन्य जिलों से भी क्षति का प्रतिवेदन आने की संभावना है, जिसके कारण प्रभावित किसानों के बीच कृषि इनपुट अनुदान वितरण करने हेतु 60.00 (साठ) करोड़ रु० की आवश्यकता के आलोक में राशि की अधियाचना की गयी है।

2. कृषि विभाग, बिहार, पटना के प्रतिवेदन के आलोक में निर्णय लिया गया है कि :-

- माह फरवरी, 2020 में राज्य में असामयिक वर्षा एवं ओलावृष्टि के कारण 33 प्रतिशत अथवा उससे अधिक फसल क्षति के लिये प्रभावित कृषकों को SDRF/NDRF के मापदंडों के आलोक में निर्धारित मानदर के अनुरूप कृषि इनपुट सब्सिडी मद से 60.00 (साठ) करोड़ रु० का भुगतान किया जाय जिसका व्यय SDRF/NDRF के अन्तर्गत कृषि इनपुट मद में उपलब्ध राशि से किया जायेगा।

- ii. इसका भुगतान स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय शीर्ष 2245-02-114-0001-कृषि इनपुट अनुदान (क्षतिग्रस्त फसलों के लिए) अन्तर्गत पूर्व में विभाग द्वारा बाढ़ 2019 हेतु कृषि इनपुट सब्सिडि मद में उपलब्ध करायी गयी राशि में से बची हुई अवशेष राशि से किया जायेगा।
3. यह आदेश तुरंत प्रवृत्त होगा।

आदेश — आदेश दिया जाता है कि सर्वसाधारण की जानकारी के लिए इस संकल्प को बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
एम० रामचन्द्रु,
अपर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 203-571+100-डी०टी०पी०।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>